





नोट:-
1. कार्यलय में उपर्युक्त कनिष्ठ/मैजिस्ट्रेट को जिला विकास योजना में अंकित कर दिया गया है यदि कोई कनिष्ठ/मैजिस्ट्रेट जिला विकास क्षेत्र से बाहर पार है तो उसको सम्बन्धित जिले में ही अंकित करवाया जायेगा।
2. सार्वजनिक, नदी, नाले आदि का चौड़ाई/गहराई विकास एवं राजस्व विभाग के अनुसार ही मान्य होगा।
3. जिला विकास योजना को क्षेत्र में जा रही एन.टी. लॉन्ग से नियमानुसार सुरक्षा दूरी छोड़ी जायेगी।
4. यह जिला विकास योजना मानचित्र वर्ष में जारी मास्टर विकास योजना 2031 का भाग मान्य जायेगा।
5. जी.सी. विभाग ई.ए. 1984/2004 में मानचित्र उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्माण को भी मानचित्र में सम्मिलित करते हुए ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी।
6. जिला विकास योजना में आवश्यकता अनुसार मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित सड़कों के अधिग्रहण नदीन रूप से सड़कों के विकास रहे गये हैं।
7. जिला विकास योजना में प्रस्तावित 24 मीटर व अधिक सड़कों के सड़के सड़क की चौड़ाई की 1.5 गुणा या एकल मुख्यध्व की गहराई एक (एन.टी. की कम हो) निश्चित उपयोज्य (आवसीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक व राजकीय) अनुप्रेष होगी।
8. जिला नदी के सार्वजनिक क्षेत्रों और राजस्व सीमा के परिसर 30 मीटर की कुलारिमा पट्टी एवं उसके बाहर 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा गया है।
9. छोटे राजस्व नाले, लावाय, नदी आदि के सार्वजनिक क्षेत्रों के परिसर 9 मीटर की कुलारिमा पट्टी का प्रावधान रखा गया है।
10. खा एवं कैचमेंट प्रणालियों से सुरक्षा दूरी, खा मंजूर, और व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुसार ही रखी जानी होगी।

Key Map



LEGEND सांकेतिक

LANDUSE भू उपयोग

AS PER PROPOSED MASTER PLAN

- RESIDENTIAL** आवासीय
RECREATIONAL आवासीय
COMMERCIAL वाणिज्यिक
COMMERCIAL CENTER/DISTRICT CENTER वाणिज्यिक केंद्र
WAREHOUSING AND GODOWNS भण्डारण एवं गोदाम
OPEN SPACE/PLAY GROUND & STADIUM खेल के मैदान एवं स्टेडियम

- MIXED USE** मिश्रित उपयोग
TOURIST FACILITIES पर्यटन सुविधाएं
INDUSTRIAL औद्योगिक
GOVERNMENTAL राजकीय
GOVERNMENT/SEMI-GOVERNMENT OFFICES सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय
GOVERNMENT RESERVED सरकारी आरक्षित
BRIDGE पुल

Zonal Development Plan 2031

- PUBLIC AND SEMI-PUBLIC** सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक
SENIOR SECONDARY / SECONDARY SCHOOL उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय
COLLEGE / PROFESSIONAL COLLEGE / UNIVERSITY महाविद्यालय / पेशेवरिक महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
GENERAL HOSPITAL / VETERINARY HOSPITAL जनकन चिकित्सालय / पशु चिकित्सालय
RELIGIOUS / HISTORICAL / SOCIAL / CULTURAL धार्मिक / ऐतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक
PUBLIC UTILITIES/COMMUNITY TOILET जनकन सुविधाएं (समुदायिक शौचालय / पार्क के पार्क का किचन)
OTHER COMMUNITY FACILITIES अन्य समुदायिक सुविधाएं
CREMATION & BURIAL GROUND कर्मण / कब्रिस्तान

- CIRCULATION** परिवहन
EXISTING ROADS मौजूदा सड़कें
PROPOSED ROAD प्रस्तावित सड़कें
BUS STAND/TRANSPORT NAGAR बस स्टैंड/परिवहन नगर
RAILWAY LINE रेलवे लाइन
RAILWAY STATION रेलवे स्टेशन
HT LINE (132/220/400 KV) उच्च वोल्टाज विद्युत लाइन (132/220/400 केवी)
HILL/HILLOCK पहाड़ी

- WATER BODIES** जल निकाय
RIVER / STREAM नदी / धारा
LAKE / POND झील / तालाब
BOUNDARIES सीमाएं
ZONE BOUNDARY जिला सीमा
VILLAGE BOUNDARY ग्राम सीमा
SPECIAL AREA-2

- PROPOSED PLAN**
ARMY AREA सेना क्षेत्र
BUFFER BOUNDARY बफर सीमा
ZONAL LEVEL/COMMUNITY FACILITIES



Zonal Development Plan 2031 North Zone N1, N2 (PART-6)

Consultants:

YCSPL Yashi Consulting Services Pvt. Ltd., Jaipur
501-510, 5th Floor, Kailash Tower, Lal Kothi
Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 302015

NOTE:- THIS MAP BEARS APPROVAL OF JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Dated 2-NOV-2021

1:12,000



Assistant Town Planner	Deputy Town Planner	Executive Engineer	Deputy Commissioner	Director (Planning)	Secretary	Commissioner	Chairman
------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------	----------

J O D H P U R D E V E L O P M E N T A U T H O R I T Y , J O D H P U R